



क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
20, सरोजनीनायडुमार्ग, प्रयागराज-211001

REGIONAL TRAINING INSTITUTE

Indian Audit & Accounts Department
20, Sarojini Naidu Marg, Prayagraj – 211001
Phone : 2421364, 2421063, 2624467 Fax : 0532-2423485

No. RTI (A)/Admn./Deptn./ 2022/ 945

दिनांक: 15.02.2022

सेवा में

मेलिंग सूची के अनुसार IA&AD के सभी कार्यालय,
CAG-ALL-OFFICES@ismgr.nic.in

विषय: क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज में प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

Sub: Deputation of Regional Training Institute (RTI), Prayagraj – reg.

महोदय/महोदया,

Sir/Madam,

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (RTI), प्रयागराज में नीचे वर्णित रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का प्रस्ताव है।

क्र. स.	पदनाम	संख्या व स्थिति	पात्रता	काम की आवश्यकता
1	सहायक पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार, लेखा परीक्षक/ लेखाकार	01	सहायक पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार, लेखा परीक्षक/ लेखाकार का पद धारण करने वाले व्यक्ति पात्र है, प्रमाणिक: मुख्यालय परिपत्र संख्या 1- SSR/2021 दिनांक 04.03.2021	निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यों में Sr.AO/ AAO (Admn.) की सहायता करना: 1. स्थापना से संबंधित काम जिनमें पीएफएमएस, आईईबीएमएस, और कैश मैजमेंट इत्यादि शामिल। 2. प्रशासन से संबंधित काम जैसे टिप्पण और मसौदा लेखन, मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों से पत्राचार इत्यादि शामिल है। 3. GeM/ GISO के माध्यम से तय प्रक्रिया के अनुसार समय पर टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट और स्टोर्स मैनेजमेंट सोर्सिंग में सहायता करना। 4. भवन और छात्रावास का रख रखाव का निगरानी रखना और रिपोर्ट करना। 5. खजांची का कार्य। 6. अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण में प्रवीणता।

1. उक्त पदों के लिए क्षे.प्र.सं., प्रयागराज में प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन उनके बायो-डाटा (संलग्न प्रोफॉर्मा में), प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापन किये गए एपीएआर की प्रमाणित प्रतियाँ और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ 07 मार्च 2022 या उससे पहले इस कार्यालय को भेजे जा सकते

हैं। यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि आवेदकों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक/ न्यायालय/ सतर्कता मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है। डाक देरी से बचने के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर संबंधित मूल कार्यालयों द्वारा ईमेल द्वारा भी भेजा जा सकता है।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी। उसके बाद, उनकी उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन उसे बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रसं, प्रयागराज में कार्य करते समय, चयनित अधिकारी अपने मूल वेतन और मौजूदा नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति भत्ता का भुगतान के हकदार होंगे।
3. सामान्य नियम शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों/ अधिकारियों के आवेदन उनके संबंधित मूल कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने वाले अधिकारियों के पास संस्था में किसी भी पद में अवशोषित होने का अधिकारी होने का अधिकार नहीं होगा।
4. क्षेत्र कार्यालयों को आरटीआई/ आरटीसी में कर्मचारियों (प्रशासन और संकाय) के संवर्द्धन के लिए विस्तृत निर्देश का सख्त अनुपालन के लिए जारी किए गए मुख्यालय के परिपत्र संख्या 269/Trg.Div/42-A/2019 दिनांक 18.09.2019 का संदर्भ लिया जा सकता है। उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश निचे पुनः अंकित किए गए हैं तथा त्वरित संदर्भ हेतु इस विज्ञापन के साथ संलग्न भी है।
 - (क) क्षेत्र कार्यालय सूचना पट्टों पर आरटीआई/ आरटीसी द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति अधिसूचनाओं को प्रदर्शित करेंगे और अधिसूचना का जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए वो कर्मचारियों के बीच प्रसारित करेंगे।
 - (ख) क्षेत्र कार्यालय किसी भी आवेदन को रोके बिना क्षेत्रसं/ आरटीसी द्वारा विज्ञापित पद के लिए अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों से प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित संस्थान/ केंद्र को अग्रेषित करेंगे।
 - (ग) चयन प्रक्रिया के पूरा होने पर, क्षेत्र कार्यालय क्षेत्रसं/ आरटीसी में शिक्षण/ प्रशासनिक कार्यों के लिए चयनित अधिकारियों/ कर्मचारियों को जल्द से जल्द मुक्त करने के लिए बाध्य रहेंगे।
 - (घ) क्षेत्रसं/ आरटीसी के लिए प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद वार्षिक आधार पर बढ़ाई जाएगी। क्षेत्रसं/ आरटीसी किसी भी समय पर प्रतिनियुक्ति अधिकारि/ कर्मचारि को कार्य प्रदर्शन असंतोषजनक पाए जाने पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. भावी उम्मीदवार आवेदन करने से पहले कृपया सेवा शर्तों और कार्य आवश्यकताओं को ध्यान से देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार क्षे.प्र.सं., प्रयागराज में आवेदन भेजे जाने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
6. क्षे.प्र.सं. के पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार/ स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

The following vacant positions at Regional Training Institute (RTI), Prayagraj are proposed to be filled up on deputation basis.

Sr. No.	Designation and Pay Level	No. of Post	Eligibility	Work requirement
1.	Asstt. Supervisor/ Sr. Auditor/ Sr. Accountant, Auditor/ Accountant	01	Persons holding the post of Asstt. Supervisor/ Sr. Auditor/ Sr. Accountant, Auditor/ Accountant are eligible Auth: Hqs	To assist Sr.AO/AAO (Admn.) in the following administrative functions. 1. Establishment functions, including operating PFMS and iBEMS, Cash Management etc. 2. Administration functions, including Noting-drafting communication with Hqs and other offices etc. 3. Assisting in tendering as per due procedure, sourcing through GeM/ GISO, contract and stores management.

			Circular No. 1- SS&R/2021 Dated 04.03.2021	4. Taking account of assets and building (including hostel) and reporting regarding the same. 5. Cash handling work. 6. Good Knowledge of Hindi Typing/ English Typing.
--	--	--	--	---


1. Applications of candidates who are willing to be considered for deputation to RTI, Prayagraj for the above posts may be forwarded to this office on or before 07 March 2022 along with their Bio-Data (Annexure enclosed), certified copies of APAR for the last 5 year duly attested on each page and vigilance clearance certificate. It will be certified that no disciplinary/ court/ vigilance case is either pending or contemplated against the applicants. The documents of the eligible candidates may be scanned and sent by email by the respective Parent offices to avoid postal delay.
2. The term of deputation will be for three years and may be extended thereafter, subject to his/ her continued suitability and administrative convenience. While working at RTI, Prayagraj the selected official will draw his/ her basic pay plus Deputation allowance, as applicable on his/ her basic pay and as admissible under extant rules.
3. The applications of the Officers/ Officials working in the office on deputation basis on normal terms and conditions shall be forwarded through their respective parent Office(s). The officials working on deputation basis shall not have right for absorption in any post in the institution.
4. A reference is invited to Headquarters Circular No 269/Trg.Div/42-A/2019 dated 18.09.2019 wherein detailed instructions to field offices on augmentation of staff (administration and Faculty) in RTI/ RTCs were issued for strict compliance. The instructions in the said circular are re-iterated below: Copy of the same is attached herewith for ready reference
 - A. field offices shall display the deputation notifications issued by RTI/RTCs on the notice boards and circulate among the staff giving reasonable time to the candidates for responding to the notification.
 - B. Field offices shall forward all applications received from their officers/ staff against the position advertised by RTIs/ RTCs to Institute/ Centre concerned without withholding any application.
 - C. On completion of selection process, the field offices shall obligatory relieve the selected officers(s) for teaching/ administrative assignments at the RTIs/ RTCs at the earliest.
 - D. The initial deputation period to RTIs /RTCs will be for 3 years and extendable on yearly basis thereafter. The RTI/ RTC however, reserves the right to repatriate a deputationist at any time if his/ her performance is found unsatisfactory.
5. Prospective candidates may please go through the service conditions and work requirements carefully before they apply. It may please be noted that once an application is sent to RTI, Prayagraj, it may not be withdrawn.
6. R.T.I. Prayagraj has right to accept/ reject any application.

यह क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज के महानिदेशक के अनुमोदन से जारी होता है।

The issues with the approval of Director General, Regional Training Institute, Prayagraj.

भवदीय

संलग्न: बायोडाटा फॉर्म।

 15.2.22

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

Advertisement No. :

Post Applied for :

Bio-Data

1. Name	
2. Designation	
3. Date of birth	
4. Qualification (i) Educational: (ii) Professional:	
5. Name of office to which the officer/official belongs (i) Parent office: (ii) Office in which working at present.	
6. Whether the officer belongs to SC/ST. If yes, please mention category.	
7. Date of entry into Govt. Service	
8. Date of entry in IA&AD	
9. Present pay	
10. Experience	
11. Details of any exam passed	
12. Proficiency in Computer. Details may be given if any	
13. Contact details (Mobile and govt.email id)	

The information furnished above is correct to the best of my knowledge.

Signature of the Candidate

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
9, DEEN DAYAL UPADHYAY MARG, NEW DELHI - 110 124

No. 269/Trg. Div./42-A/2019

Dated 18.09.2019

TRAINING DIVISION
CIRCULAR

To

Heads of Department of IA&AD offices
(As per e-mail list)

Subject: Deputation of staff to RTIs/RTCs

Madam/Sir,

Regional Training Institutes (RTIs)/Regional Training Centres (RTCs) are the centres for capacity building of Indian Audit & Accounts Department and enrich the human capital of its user offices across India.


The staff working at RTIs/RTCs are appointed on deputation basis from field offices of the department across India. To augment the staff (Administration and Faculty) in RTIs/RTCs, the competent authority has decided that while deputing staff to RTIs/RTCs, all the field offices shall strictly adhere to the following instructions:

- (i) Field offices shall display the deputation notifications issued by RTIs/RTCs on the notice boards and circulate among the staff giving reasonable time to the candidates for responding to the notification;
- (ii) Field offices shall forward all the applications received from their officers/staff against the positions advertised by RTIs/RTCs to the concerned Institute/Centre, without withholding any application;
- (iii) On completion of selection process, the field offices shall obligatorily relieve the selected officer(s) for teaching/administrative assignments at RTIs/RTCs at the earliest.
- (iv) The initial deputation period to RTIs/RTCs will be for 3 years and extendable on yearly basis thereafter. The RTI/RTC however, reserves the right to repatriate a deputationist at any time, if his/her performance is found unsatisfactory.

Receipt of this circular may please be acknowledged by email to trgwing@cag.gov.in

सी० ए० जी० हायरी
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संरक्षण
भारतीय विजय संस्थान संकाय
पत्र सं० १२८
दिनांक 23/9/19
दीर्घाय प्रशिक्षण संस्था
२० नि. स/प्रशासन
पत्र सं०.../302
दिनांक... 23/9/19

Yours faithfully,


(Kulwant Singh)
Principal Director (Training)

Sr. 00 (A)

21/9/19
PO

9A 3/2019
22/9/19